

रजिस्ट्रार की प्रति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

केंद्रीय बैंक ऑफिस डीपी ऑपरेशंस, यूटीआए टावर, दूसरा तल

जीएन ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400051

डीपी आईडी – एन300870

अनुलग्नक डी
एनएसडीएल
अभौतिकीकृत (डीमैटरियलाइजेशन) अनुरोध फॉर्म

डीआरएन

(डीपी द्वारा भरा जाए)

क्रमांक 1708

दिनांक : -----

मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं कि निम्नलिखित विवरणों के अनुसार मेरे/हमारे खाते में संलग्न प्रमाणपत्र डीमैटरलाइज करें.:

ग्राहक आईडी									
एकल/प्रथम धारक का नाम									
द्वितीय धारक का नाम									
तृतीय धारक का नाम									
कंपनी का नाम									
प्रतिभूति का प्रकार	इच्छिटी/अन्य (कृपया उल्लेख करें)								
डीमैटरलाइज करने की मात्रा (अंकों में)									
(शब्दों में)									
अंकित मूल्य									
आईएसआईएन (डीपी द्वारा भरा जाए)	I	N							

प्रतिभूतियों के विवरण:

फोलियो नं.	----- मुक्त प्रतिभूति		----- लॉक इन प्रतिभूति		मात्रा
	प्रमाणपत्र संख्या		डिस्टिक्टिव नं.		
	से	तक	से	तक	

प्रमाणपत्रों की कुल संख्या:-----

लॉक इन प्रतिभूतियों के विवरण :

लॉक इन का कारण	
लॉक इन के रिलीज की तारीख	

(यदि स्थान अपर्याप्त है तो समान प्रारूप में प्रमाणपत्रों के विवरणों वाला अनुलग्नक संलग्न करें. कृपया मुक्त प्रतिभूतियों एवं लॉक इन प्रतिभूतियों के लिए अलग फॉर्म का प्रयोग करें)

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त प्रतिभूतियां मेरे/हमारे नाम पर पंजीकृत हैं. डीमैटरलाइजेशन हेतु मेरे/हमारे द्वारा इस के साथ मूल प्रमाणपत्र सरेंडर किए जा रहे हैं. मैं/हम एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि डीमैटरलाइजेशन हेतु मेरे/हमारे द्वारा

सरेंडर की गई प्रतिभूतियां किसी भी लियन या प्रभार या ऋण-भार से मुक्त हैं और मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी की सदाशयी प्रतिभूतियों को दर्शाती हैं.

धारक	हस्ताक्षर
एकल/प्रथम धारक	
द्वितीय धारक	
तृतीय धारक	

प्रतिभागिता प्राधिकरण

हमें उपरोक्त प्रतिभूतियां डीमैटरलाइजेशन हेतु प्राप्त हुई हैं. डीमैटरलाइजेशन के लिए सरेंडर प्रमाणपत्रों से आवेदन फॉर्म को सत्यापित किया गया है और हम प्रमाणित करते हैं कि आवेदन फॉर्म संलग्न प्रमाणपत्रों में उल्लिखित विवरणों के अनुरूप है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिभूतियों के धारक के समान नाम(मों) पर हमारे पास लाभार्थी खाता है.

कार्यपालक का नाम

कृते बैंक ऑफ़ बडौदा
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
डिपोजिटरी सेवाएं विभाग

प्रतिभागी की मुहर एवं दिनांक

पावती

क्रमांक 1708

हम एतद्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती ----- ग्राहक आईडी -----
--- द्वारा सरेंडर किए गए -----
--- के ----- शेयर/यूनिट/बॉन्ड/डिबेंचर की प्राप्ति की पावती देते हैं.

दिनांक: ----- प्रतिभागी की मुहर एवं हस्ताक्षर



DEMATERIALISATION REQUEST FORM

Central Back Office D P Operations, UTI Towers, 2nd Floor,
GN Block, Bandra Kuria Complex, Mumbai - 400 051.

DP - ID - N 300870

Serial No.

1708

DRN

(to be filled in by the DP)

Date _____

I/We request you to dematerialise the enclosed certificates into my/our account as per the details given below :

Client Id									
Sole/First Holder Name									
Second Holder Name									
Third Holder Name									
Company Name									
Type of Security	Equity/Others (Please specify)								
Quantity to be Dematerialised (in figures)									
(in words)									
Face Value									
ISIN (To be filled in by the DP)	I	N							

Details of Securities :

<input type="checkbox"/> Free Securities		<input type="checkbox"/> Locked-in Securities			
Folio No.	Certificate Nos.		Distinctive Nos.		Quantity
	From	To	From	To	

Total No. of Certificates : _____

Details of Locked-in Securities :

Lock-in reason	
Lock-in release date	

(In case the space is found to be insufficient, an annexure containing the certificate details in the same format may be attached. Please use separate form for free securities and locked-in securities)

Declaration

I/We hereby declare that the above mentioned securities are registered in my/our name. The original certificates are hereby surrendered by me/us for dematerialisation. I/We also hereby declare that the securities surrendered by me/us for dematerialisation are free from any lien or charge or encumbrance and represents the bonafide securities of the company to the best of my/our knowledge and belief.

Holder(s)	Signature(s)
Sole/First Holder	
Second Holder	
Third Holder	

Participation Authorisation

We have received the abovementioned securities for dematerialisation. The application form is verified with the certificates surrendered for dematerialisation and we certify that the application form is in accordance with the details mentioned in the enclosed certificates. It is also certified that the holders of the securities have beneficiary account with us in the same name(s).

For **Bank of Baroda**

Name of the Executive :

Authorised Signatory
Depository Services Dept.

Participant's Stamp & Date

ACKNOWLEDGEMENT

Serial No.

1708

We hereby acknowledge the receipt of _____ shares / units / bonds / debentures of _____ surrendered for dematerialisation by Mr. / Ms. / M/s. _____ having Client Id _____

Date : _____

Participant's Stamp & Signature